



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08122023-250480
CG-DL-E-08122023-250480

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 699]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 7, 2023/अग्रहायण 16, 1945

No. 699]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 7, 2023/AGRAHAYANA 16, 1945

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2023

सा.का.नि. 882(अ).—केंद्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पशु परिवहन काडर समूह 'क' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पशु परिवहन काडर समूह 'क' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (दूसरा संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, पशु परिवहन काडर समूह 'क' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2018 की अनुसूची में सहायक सेनानी (पशु परिवहन) के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ (11) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“प्रोन्नति:

वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.) में के भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे निरीक्षक (पशु परिवहन) में से, जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और विनिर्दिष्ट प्रोन्नति-पूर्व पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो।”

- टिप्पण 1 :** इन नियमों की अधिसूचना की तारीख पर निरीक्षक (पशु परिवहन) का पदधारण करने वाले व्यक्तियों के लिए पात्रता सेवा तीन वर्ष रहेगी।
- टिप्पण 2 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

[फा. सं. I-12012/16/2016-संगठन]

पी.एस. डंगवाल, उप-सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1099(अ), तारीख 01 नवंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 62(अ), तारीख 30 जनवरी, 2023 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 2023

G.S.R. 882(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Home Affairs, Indo-Tibetan Border Police Force, Animal Transport Cadre, Group 'A' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) Posts, Recruitment Rules, 2018, namely:-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Home affairs, Indo-Tibetan Border Police Force, Animal Transport Cadre, Group 'A' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) Posts, Recruitment (Second Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Home Affairs, Indo-Tibetan Border Police Force, Animal Transport Cadre, Group 'A' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) Posts, Recruitment Rules, 2018, in the Schedule, against serial number 1, relating to the post of Assistant Commandant (Animal Transport), in column (11), for the entries, the following shall be substituted, namely:-

“Promotion:

From amongst Inspector (Animal Transport) of Indo-Tibetan Border Police Force in level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) with five years regular service in the grade and having successfully completed the specified pre-promotional course.

Note 1 : The eligible service shall continue to be three years for persons holding the post of Inspector (Animal Transport) on regular basis, on the date of notification of these Rules.

Note 2 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service of two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.”

[F. No. I.12012/16 /2016-Org]

P.S. Dangwal, Dy. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(i), vide number G.S.R. 1099 (E), dated the 1st November, 2018 and subsequently amended vide number G.S.R. 62(E), dated the 30th January, 2023.